

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने नॉर्थैम्पटन पार्क का नाम बदलकर नॉर्थरप पार्क रखा

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 अप्रैल, 2022) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने कांस्टेबल जेफरी नॉर्थरप (Jeffrey Northrup) के सम्मान और याद में, ऑफिशियल तौर पर नॉर्थैम्पटन पार्क (Northampton Park) का नाम बदलकर नॉर्थरप पार्क (Northrup Park) रख दिया है। उनकी 2 जुलाई, 2021 को इयूटी करते हुए मौत हो गई थी, जब वे एमरजेंसी कॉल पर काम कर रहे थे। उन्होंने पुलिस अफसर के तौर पर 31 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी।

कांस्टेबल नॉर्थरप, ब्रैम्पटन के निवासी थे। उन्होंने 1989 में कोर्ट सर्विसिज (Court Services) में अपना कैरियर शुरू किया था और टोरोंटो पुलिस सर्विस (Toronto Police Service) में 1999 में, कांस्टेबल के तौर पर शपथ ली थी।

मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown) ने कहा, “मैं कांस्टेबल नॉर्थरप के परिवार और दोस्तों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं इस पार्क का नाम बदलने का हिस्सा होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, जो इस आदर्श लीडरशिप और बलिदान को याद करवाता रहेगा।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि जब उनका परिवार और दोस्त इस पार्क में जाएंगे, तो वे उन्हें याद करेंगे और उनकी याद को जीवित रखेंगे।”

टोरोंटो पुलिस चीफ, जेम्स रैमर (James Ramer) ने कहा, “टोरोंटो पुलिस सर्विस की तरफ से मैं हमारे फॉलन अफसर, डिटेक्टिव कांस्टेबल जेफ नॉर्थरप को यह श्रद्धांजलि देने के लिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का धन्यवाद करता हूँ।” उन्होंने आगे कहा, “यह पार्क, जो उनके नाम पर होगा, उनकी याद को सम्मानित करेगा और लोगों को पब्लिक सर्विस की वेल्यु याद दिलाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह, उनके परिवार, दोस्तों और ब्रैम्पटन की कम्युनिटी के लिए, गर्व और खुशी की जगह होगी।”

कांस्टेबल नॉर्थरप और उनकी पत्नी, मार्गरेट (Margaret), 20 वर्षों से अधिक समय तक ब्रैम्पटन कम्युनिटी के सक्रिय मेम्बर रहे हैं और स्काउट्स कैनेडा (Scouts Canada), ब्रैम्पटन लैकरोस (Brampton lacrosse) और स्पेशल ओलिंपिक्स (Special Olympics) में शामिल रहे हैं।

पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police) के चीफ निशान दुरईअप्पा (Nishan Duraiappah) ने कहा, “फॉलन अफसर, डिटेक्टिव कांस्टेबल जेफ नॉर्थरप ने अपने परिवार, दोस्तों और ब्रैम्पटन की अपनी कम्युनिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा।” उन्होंने आगे कहा, “नॉर्थरप पार्क, हमारी कम्युनिटी के मेम्बरों और पील रीजनल पुलिस के लिए खास जगह होगा, क्योंकि यह हमेशा याद दिलाएगा कि डिटेक्टिव कांस्टेबल जेफ नॉर्थरप कौन थे। यह, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के लिए उनकी प्रतिबद्धता के साथ-साथ, दूसरों की सेवा में उनके बलिदान को भी सम्मानित करेगा।”

कांस्टेबल नॉर्थरप को कम्युनिटी में उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता, उनकी टीम के प्रति समर्पण के लिए और एक प्यारे पति, पिता और बेटे के तौर पर याद किया जाता है। वे अपने पीछे, अपनी पत्नी, मार्गरेट, तीन बच्चे, ब्रेनन (Brennen), समैंथा (Samantha) और मिचुल (Mitchell) और मां, डिआन (Diane) को छोड़ गए हैं।

इस सुबह के कार्यक्रम की फोटो, [ड्रॉपबॉक्स हेयर \(Dropbox here\)](#) पर उपलब्ध हैं। कृपया फोटो क्रेडिट्स में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को श्रेय दें।

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)